

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19<sup>th</sup> June, 2017, published vide number G.S.R. 610(E), dated the 19<sup>th</sup> June, 2017 and last amended vide notification No. 58/2020 - Central Tax, dated the 01<sup>st</sup> July, 2020, published vide number G.S.R. 426(E), dated the 01<sup>st</sup> July, 2020.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2020

#### सं. 61/2020-केंद्रीय कर

**सा.का.नि. 481(अ).**—सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना सं. 13/2020-केंद्रीय कर, तारीख 21 मार्च, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 196 (अ), तारीख 21 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पहले अनुच्छेद में-

- (i) “जो उक्त नियमों के नियम 54” शब्दों, के पहले “किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई तथा” शब्द को अतःस्थापित किया जाएगा;
- (ii) “एक सौ करोड़ रुपये” शब्दों के लिए “पाँच सौ करोड़ रुपये” शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीईसी-20/13/01/2019-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना संख्या 13/2020-केंद्रीय कर दिनांक 21 मार्च, 2020 को सा.का.नि. 196(अ) दिनांक 21 मार्च, 2020 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30<sup>th</sup> July, 2020

#### No. 61/2020-Central Tax

**G.S.R. 481(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2020 - Central Tax, dated the 21<sup>st</sup> March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 196(E), dated the 21<sup>st</sup> March, 2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph,

- (i) before the words “those referred to in sub-rules”, the words “a Special Economic Zone unit and” shall be inserted;
- (ii) for the words “one hundred crore rupees”, the words “five hundred crore rupees” shall be substituted.

[F. No. CBEC-20/13/01/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification No. 13/2020-Central Tax, dated the 21<sup>st</sup> March, 2020, published vide number G.S.R. 196(E), dated the 21<sup>st</sup> March, 2020.